



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 250

KM — 30

CPB — 220

सं. 47]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2004/माघ 9, 1925

No. 47]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2004/MAGHA 9, 1925

पुरा किया

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

प्रभारी
रा. वि. एकक

सा.का.नि. 85(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2004 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 4 में, उप-पैरा (1) के परन्तुक में "तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एस-65011/1/03-एस.एस. II]

डी. एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र में दिनांक 2-9-1952 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1509 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 6-11-2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 868(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Sub-section (1) of Section 7, of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

- (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2004.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in the proviso to Sub-paragraph (1), for the word 'three', the word 'five' shall be substituted.

[F.No. S-65011/1/03-SS. II]

D. S. POONIA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1509 dated 2-9-1952 and last amended vide notification number G.S.R. 868(E) dated 6-11-2003.